



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 801) पटना, बुधवार, 9 अक्टूबर 2013

---

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर 2013

सं0 3/एच0-01/2013-सा0-16302—बिहार-राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि वर्ष, 2014 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर सामान्य अवकाश रहेगा।

2. अनुसूची-1 में उल्लिखित सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष 2014 में राज्य सरकार के कर्मी संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन अवकाशों (**अधिकतम तीन**) का उपभोग कर सकेंगे।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20-25/26/पर्व-1, दिनांक 08 जून 1957 के साथ पठित निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऐक्ट, 1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत, उक्त स्पष्टीकरण में सार्वजनिक अवकाश के रूप में परिभाषित रविवारों के अतिरिक्त संलग्न अनुसूची-3 एवं अनुसूची-4 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर वर्ष 2014 में बिहार राज्य में सार्वजनिक अवकाश/बैंक खाता वार्षिक बंदी अवकाश रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

## अनुसूची-1

बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए वर्ष 2014 में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित सामान्य अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस	1	07 जनवरी	पौष सुदी सप्तमी	मंगलवार
2.	हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस	1	14 जनवरी	12 रबीउल औव्वल	मंगलवार
3.	वसंत पंचमी	1	04 फरवरी	माघ शुक्ल पंचमी	मंगलवार
4.	महाशिवरात्रि	1	27 फरवरी	फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी	गुरुवार
5.	महावीर जयंती	1	13 अप्रैल	चैत्र शुक्ल त्रयोदशी	रविवार
6.	वीर कुंवर सिंह जयंती	1	23 अप्रैल		बुधवार
7.	जानकी नवमी	1	08 मई	वैशाख शुक्ल नवमी	गुरुवार
8.	बुद्ध पूर्णिमा	1	14 मई	वैशाख शुक्ल पूर्णिमा	बुधवार
9.	कबीर जयंती	1	13 जून	ज्येष्ठ पूर्णिमा	शुक्रवार
10.	शब-ए-बरात	1	15 जून	15 शाबान	रविवार
11.	दुर्गा पूजा (सप्तमी)	1	01 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल सप्तमी	बुधवार
12.	दुर्गा पूजा (महाअष्टमी)	1	02 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल अष्टमी	गुरुवार
13.	चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज	1	25 अक्टूबर	कार्तिक शुक्ल द्वितीया	शनिवार
14.	चेहल्लुम	1	14 दिसम्बर	20 सफर	रविवार

- टिप्पणी I-** (1) चॉद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।  
 (2) राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।  
 (3) क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में 6 (छह) दिवसीय कार्य सप्ताह वाली पूर्व की प्रणाली लागू रहेगी।

अनुसूची-2

वर्ष 2014 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की सूची।  
(पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन का उपभोग किया जा सकता है।)

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1	नव वर्ष	1 दिन	1 जनवरी	-----	बुधवार
2	मकर संक्रांति	1 दिन	14 जनवरी	पौष शुक्ल चतुर्दशी	मंगलवार
3.	संत रविदास जयंती	1 दिन	14 फरवरी	माघ शुक्ल पूर्णिमा	शुक्रवार
4.	होली	1 दिन	15 मार्च	फाल्गुन शु0 चतुर्दशी	शनिवार
5.	अंतिम श्रावणी सोमवार	1 दिन	04 अगस्त	श्रावण शुक्ल त्रयोदशी	सोमवार
6.	रक्षा बंधन	1 दिन	10 अगस्त	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा	रविवार
7.	रमजान का अंतिम जुमा	1 दिन	25 जुलाई	25 रमजान	शुक्रवार
8.	ईद-उल-फितर (ईद)	1 दिन	30 जुलाई	02 शौबवाल	बुधवार
9.	विश्वकर्मा पूजा	1 दिन	17 सितम्बर	-	बुधवार
10.	अनन्त चतुर्दशी	1 दिन	08 सितम्बर	भाद्र शुक्ल चतुर्दशी	सोमवार
11.	दुर्गा पूजा कलश-स्थापन	1 दिन	25 सितम्बर	आश्विन शुक्ल प्रतिपदा	गुरुवार
12.	दुर्गा पूजा	1 दिन	04 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल एकादशी	शनिवार
13.	ईद-उज-जोहा (बकरीद)	1 दिन	07 अक्टूबर	11 ज़िलहिज्जा	मंगलवार
14.	छठ पूजा (खरना)	1 दिन	28 अक्टूबर	कार्तिक शुक्ल पंचमी	मंगलवार
15.	मुह्ररम	1 दिन	05 नवम्बर	11 मुह्ररम	बुधवार
16.	गुरु नानक जयंती	1 दिन	06 नवम्बर	कार्तिक पूर्णिमा	गुरुवार
17.	क्रिसमस-ईव	1 दिन	24 दिसम्बर	-----	बुधवार

- टिप्पणी-
- (1) चॉद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
  - (2) उपरलिखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्ही तीन अवकाशों (अधिकतम तीन) का उपभोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन सामान्यतः आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जा सकेगी।

**अनुसूची-3**  
वर्ष 2014 के लिए बिहार राज्य में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1	गणतंत्र दिवस	1	26 जनवरी	-----	रविवार
2.	बिहार दिवस	1	22 मार्च	-----	शनिवार
3.	होली	1	16 मार्च	फाल्गुन पूर्णिमा	रविवार
		1	17 मार्च	चैत्र प्रतिपदा	सोमवार
4.	राम नवमी	1	08 अप्रैल	चैत्र शुक्ल नवमी	मंगलवार
5.	भीम राव अम्बेदकर जयंती	1	14 अप्रैल	-----	सोमवार
6.	गुड फ्राइडे	1	18 अप्रैल	-----	शुक्रवार
7.	मई दिवस (श्रम दिवस)	1	01 मई	-----	गुरुवार
8.	ईद-उल-फितर (ईद)	1	29 जुलाई	01 शौव्वाल	मंगलवार
9	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त	-----	शुक्रवार
10	श्री कृष्ण जन्माष्टमी	1	18 अगस्त	भाद्र कृष्ण अष्टमी	सोमवार
11	महात्मा गाँधी जयंती	1	02 अक्टूबर	—	गुरुवार
12	दुर्गा पूजा (महानवमी) एवं (विजयादशमी)	1	03 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल नवमी एवं दशमी	शुक्रवार
13	ईद-उज-जोहा (बकरीद)	1	06 अक्टूबर	10 ज़िलहिज्जा	सोमवार
14	दीपावली	1	23 अक्टूबर	कार्तिक कृष्ण अमावस्या	गुरुवार
15	छठ पूजा	2	29 एवं 30 अक्टूबर	कार्तिक शुक्ल षष्ठी/सप्तमी	बुधवार एवं गुरुवार
16	मुह्ररम	1	04 नवम्बर	10 मुह्ररम	मंगलवार
17	क्रिसमस डे	1	25 दिसम्बर	-----	गुरुवार

- टिप्पणी—** (1) चॉद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।  
(2) एन0आई0एक्ट के तहत उक्त घोषित अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वतः लागू होंगे।

**अनुसूची-4**  
वर्ष 2014 में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत बैंक खाता बन्दी अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1	बैंक खाता की वार्षिक बंदी	1 दिन	1 अप्रैल	-----	मंगलवार

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 801-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>